



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 2017/माघ 18, 1938

No. 329]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2017/MAGHA 18, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2017

का.आ. 364(अ).—विध्वंसक कीट व नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खंड 3 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में और अधिक संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. लघु शीर्ष एवं प्रारंभ.—(1) इस आदेश को पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2017 कहा जाए।

(2) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. क्रम संख्या 41 तथा इनमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात शीर्षक “बंदरगाह” के अंतर्गत पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन), आदेश 2003 की अनुसूची I में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी नामतः :-

बंदरगाह
"42 दहेज बंदरगाह (गुजरात)
43 धमरा बंदरगाह (ओडिशा)"

3. क्रम सं. 70 तथा इसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन), आदेश, 2003 की अनुसूची II में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी नामतः

स्थान	राज्य	स्थिति	पीक्यू स्टेशन का अधिकार क्षेत्र
"71. बोरखेडी, नागपुर	महाराष्ट्र	इनलैंड कंटेनर डिपो	पौध संगरोध प्रकोष्ठ, केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र, नागपुर"

[फा. सं. 8-61/2015-पी०पी० II (खण्ड II)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** पादप संगरोध (भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर, 2003 के का.आ. 1322(अ) में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का.आ. 167(अ), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427(अ), 31 मई, 2004 के का.आ. 644(अ), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263(अ), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462(अ), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121(अ), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353(अ), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873(अ), 6 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074(अ), 3 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069(अ), 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3(अ), 8 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847(अ), 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888(अ), 9 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286(अ), 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390(अ), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269(अ), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298(अ), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907(अ), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095(अ), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284(अ), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516(अ), 4 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711(अ), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052(अ), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887(अ), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845(अ), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296(अ), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775(अ), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799(अ), 28 मई, 2013 के का.आ. 1378(अ), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531(अ), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919(अ), 13 जून, 2014 के का.आ. 1508(अ), 27 जून, 2014 के का.आ. 1632(अ), 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2320(अ), 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2542(अ), 11 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2879(अ), 10 दिसम्बर, 2014 के का.आ. 3114(अ), 26 मई, 2015 के का.आ. 1413(अ), 15 सितम्बर, 2015 के का.आ. 2496(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का.आ. 101(अ), 7 मार्च, 2016 के का.आ. 608(अ), दिनांक 25 मई, 2016 के का.आ. 1873(अ), दिनांक 20 जून, 2016 के का.आ. 2192(अ) दिनांक 29 जून, 2016 के का.आ. 2248(अ), दिनांक 05 जुलाई, 2016 के का.आ. 2453(अ), दिनांक 5 अगस्त, 2016 के का.आ. 2614(अ) एवं दिनांक 12 जनवरी, 2017 के का.आ. 264(अ) के माध्यम से संशोधन किया गया है।

## MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2017

**S.O. 364(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

- Short title and Commencement.**—(1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Second Amendment) Order, 2017.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- In Schedule I of Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, under the heading “Seaports”, after serial number 41 and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be added, namely :-

Seaports
“42. Dahej Port (Gujarat)
43. Dhamra Port (Orissa)”

- In Schedule II of the Plant Quarantine (Regulation of import into India) Order, 2003 after serial number 70 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be added, namely:-

Place	State	Status	Jurisdiction of PQ Station
“71 Borkhedi, Nagpur	Maharashtra	Inland Container Depot	Plant Quarantine Cell, Central Integrated Pest Management Centre, Nagpur.”

[F. No. 8-61/2015-PP.II(Vol.II)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

**Note :** The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322(E), dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O. 167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462(E), dated 31st March 2005, S.O. 1121(E), dated 14th July 2006, S.O. 1353(E), dated 31st July 2006, S.O. 1873(E), dated 31st October 2006, S.O. 2074(E), dated 6th December 2006, S.O. 2069(E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847(E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888(E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286(E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390(E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269(E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298(E), dated 24th December, 2009, S.O. 907(E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284(E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516(E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711(E), dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E), dated 28th December, 2010, S.O. 887(E), dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845(E), dated 21st December, 2011, S.O. No. 296(E), dated 17th February, 2012, S.O. 2775(E), 23rd November, 2012, S.O. 799(E), dated 21st March, 2013, S.O. 1378(E), dated 28th May, 2013, S.O. 1531(E), dated 14th June, 2013, S.O. 2919(E), dated 26th September, 2013, S.O.1508(E), dated 13th June, 2014, S.O. No.1632(E), dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E), dated 12th September, 2014, S.O. No.2542(E), dated 29th September, 2014, S.O. No. 2879(E), dated 11th November, 2014, S.O. No.3114(E), dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E), dated 26th May, 2015, S.O. No. 2496(E), dated 15th September, 2015, S.O. No. 101(E), dated 13th January, 2016, S.O. No. 608(E), dated 7th March, 2016 S.O. No. 1873(E), dated 25th May, 2016, S.O. No. 2192(E), dated 20th June, 2016, S.O. No. 2248(E), dated 29th June, 2016, S.O. No. 2453(E), dated 5th July, 2016, S.O. No.2614(E), dated 5th August, 2016 and S.O. No. 264(E), dated 12th January, 2017.